



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2010/माघ 21, 1931

No. 255]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010/MAGHA 21, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2010

**का.आ. 297(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. का.आ. 2998(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य के जिला खेड़ा में विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र “टाइम्स ऑफ इण्डिया” में तारीख 13 फरवरी, 2009 और “सन्देश” में तारीख 13 फरवरी, 2009 को प्रकाशित किया गया था;

और, जिला खेड़ा से संबंधित भूमि की बाबत एक सौ बानवे आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, यह केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

## अनुसूची

गुजरात राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए खेडा जिले के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

क.स.	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/ प्लॉट सं.		जमीन के प्रकार	जमीन की प्रकृति	हेक्टर वर्ग मीटर में क्षेत्रफल	जमीन मालिक /रुचिकर व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	खेडा	(1) बरोडा	114/3		निजी	कृषि	0.4751	सुजाबा उदेसंग लसमनसंग की विधवा
								गुमानसंग उदेसंग
								नवालसंग उदेसंग
			114/1		निजी	कृषि	0.1812	विजयभाई गोरधनभाई जसेजा धर्मेन्द्र गोरधनभाई जसेजा
			115/2		निजी	कृषि	0.0463	श्रीराभाई जीवाभाई बाबीबेन मफतभाई की विधवा गीताबेन मफतभाई की लड़की कैलाशबेन मफतभाई की लड़की नयनाबेन मफतभाई की लड़की मंजुबेन मफतभाई की लड़की अवीनाशभाई मफतभाई भद्रेशभाई मफतभाई
			115/1		निजी	कृषि	0.1584	शान्ताबेन मगाभाई की विधवा
			109	109 /2	निजी	कृषि	0.0305	जाहेदाली गुजनफराली मकसुदाली गुजनफराली अमजदाली गुजनफराली फुलसुमबीबी गुजनफराली साहेदाबानु गुजनफराली शाहीनबानु गुजनफराली
			111/1P	111/1/ए	निजी	कृषि	0.0400	शकारीबेन मंगलभाई रणछोडभाई मंगलभाई अमृतभाई मंगलभाई मीरीषभाई मंगलभाई
			111/2b		निजी	कृषि	0.1382	त्रिकमभाई अरजनभाई जेठभाई अरजनभाई रमनभाई अरजनभाई मनीबेन अरजनभाई रमीबेन अरजनभाई
			105/4		निजी	कृषि	0.2277	दाहीबेन पंचाभाई बुधारभाई की लड़की शारदाबेन दुलाभाई वर्षाबेन दुलाभाई अनीलकुमार दुलाभाई
			105/3		निजी	कृषि	0.0573	मंगलभाई उकाभाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			43/1	43/1/1	निजी	कृषि	0.8145
							कालाभाई सनाजी गबरुभाई सनाजी बदेसंग सनाजी बुधाभाई सनाजी परबतभाई सनाजी समुबेन सनाजी जाखीबेन गुगाजी की विधवा अंबालाल गुगाजी जेबाभाई गुगाजी चंचलबेन सनाजी गुगाजी छोटभाई गुगाजी मधुबेन सनाजी शान्तीभाई सनाजी स्वेताबेन सनाजी
			22		निजी	कृषि	1.8460
			21		निजी	कृषि	0.3301
			20		निजी	कृषि	1.0980
		(2) गोविंदपुरा	256		निजी	कृषि	1.2232
							मनुभाई आत्माराम परमार परसीराम आत्माराम परमार ईश्वरभाई आत्माराम परमार रक्कीभाई आत्माराम परमार शंकरभाई आत्माराम परमार रामजीभाई रणछोडभाई परमार जयदीपभाई रणछोडभाई परमार अरविदभाई रणछोडभाई परमार
			259		निजी	कृषि	0.0105
							रमनभाई बकोरभाई देवाबेन बकोरभाई की लड़की अरविदभाई बकोरभाई गंगाबेन बकोरभाई की लड़की
			255		निजी	कृषि	0.0880
			253		निजी	कृषि	1.0458
							रामाभाई भालजीभाई नामाभाई देवाभाई
			249		निजी	कृषि	0.7128
							रमनभाई बकोरभाई देवाबेन बकोरभाई की लड़की अरविदभाई बकोरभाई गंगाबेन बकोरभाई की लड़की
2	मातर	(I)कांडली	365		निजी	कृषि	0.2005
							अर्जुनभाई भीखाभाई ऊत्रसंग भीखाभाई केलाशबेन भीखाभाई रंजनबेन भीखाभाई
			366		निजी	कृषि	0.2475
							गजराबेन मानसंग बापुजी की विधवा विनोदभाई मानसंग विलासबेन मानसंग दोलतसंग मानसंग साजनबेन मानसंग हंसुभाई मानसंग अरविदभाई मानसंग
			364		निजी	कृषि	0.6553
							हंसुभाई मगनभाई पसीतमभाई मगनभाई विन्नुभाई मगनभाई रमनभाई मगनभाई अंबालाल धोरीभाई नारनसिंह साहेबसंग ऊन्नरसीध भीखाभाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			363	निजी	कृषि	0.0562	जगदीशभाई भीखाभाई लीलाबेन भीखाभाई कोकीलाबेन भीखाभाई
			367	निजी	कृषि	0.4621	नंदुबेन शाहेबसंग मादवसंग की पत्नी नरनभाई शाहेबसंग
			368 - A 368 - B	निजी	कृषि	0.2497	मानेकलाल शीवाभाई जगदीशभाई अंबालाल
			340	निजी	कृषि	0.1553	कमलाबेन अंबालाल आशा की विधवा सुमनभाई अंबालाल राजेशभाई अंबालाल योगेशभाई अंबालाल
			331 P	निजी	कृषि	0.5751	अनीलभाई परसोत्तमभाई
			339	निजी	कृषि	0.1266	कपीलाबेन चुनीभाई खोडा की विधवा शैलेषभाई चुनीभाई अनीलकुमार चुनीभाई चेतनाबेन चुनीभाई योगिताबेन चुनीभाई
			332	निजी	कृषि	0.0716	सुनीलभाई परसोत्तमभाई नरोत्तमभाई
			333	निजी	कृषि	0.3769	मनुभाई मगनभाई शान्तीभाई मगनभाई रमनभाई मगनभाई सुरेशभाई मगनभाई मसुबेन मगनभाई गीताशबेन मगनभाई दाहीबेन मगन तलासी की विधवा
			334	निजी	कृषि	0.6909	गीरीशभाई चंदुभाई ईलाबेन चंदुभाई
			324	निजी	कृषि	0.0172	परसोत्तमभाई मंगलभाई चंदुभाई मंगलभाई वीनुभाई मंगलभाई रमनभाई मंगलभाई
			325	निजी	कृषि	0.0327	भागवतपसाद देवशंकर सुनंदाबेन कनैयालाल देवशंकर की विधवा भारतीबेन कनैयालाल भद्रेश कनैयालाल ईलाबेन कनैयालाल केलाशभाई कनैयालाल
			322	निजी	कृषि	0.3663	रक्जीभाई सोमाभाई अंबालाल सोमाभाई जसभाई सोमाभाई
			335	निजी	कृषि	0.5175	दाहीबेन उमेदभाई कालीदास की विधवा भानुभाई उमेदभाई नरेन्द्रभाई उमेदभाई
			337	निजी	कृषि	0.0008	रसीकलाल गनपतराम

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/4-वेस्टर्न कॉरीडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुख सुविधाएं-1)

**MINISTRY OF RAILWAYS**

(RAILWAY BOARD)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2010

**S.O. 297(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 2998 (E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2008 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project Western Dedicated Freight Corridor in the District of Kheda in the State of Gujarat;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspaper. The Times of India and the Sandesh, dated 13<sup>th</sup> February, 2009 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, thirty seven numbers of objections were received in respect of land pertaining to the District of Kheda, and the same have been considered and disallowed by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railway Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the Special Railway Project Western Dedicated Freight Corridor in the District Kheda in the state of Gujarat

Serial Number	Name of the Taluka	Name of the village	Survey Number / Block Number		Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the land owner / interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kheda	(1) Dharoda	114/3		Private	Agriculture	0.4751	Suiaba Udesang Gumansang Udesang Navalsang Udesang
			114/1		Private	Agriculture	0.1812	Vijaybhai Goradhanbhai Dharmendarbhai
			115/2	115/2/0 1	Private	Agriculture	0.0463	Hirabhai Jivabhai Babiben Mafatbhai Ni Geetaben Mafatbhai Ni Kailasben Mafatbhai Ni Naynaben Mafatbhai Ni Dikari Manjuben Mafatbhai Ni Dikari Asivnbhai Mafatbhai Bhadreshbhai Mafatbhai

500 AT/10-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			115/1		Private	Agriculture	0.1584 Shantaben Maghabhai Ni Vidhva
			109	109 /P2	Private	Agriculture	0.0305 Jahedali Gajanfarali Maksudali Gajanfarali Amjadali Gajanfarali Fulsumbibhi Gajanfarali Sahedabanu Gajanfarali Shahinbanu Gajanfarali
			111/1P	111/1/1	Private	Agriculture	0.0400 Sakariben Mangalbhai Ranchhodbhai Magalbhai Amrutbhai Magalbhai Girihsbhai Magalbhai
			111/2b	111/1/2	Private	Agriculture	0.1382 Trikambhai Arajanbhai Jethabhai Arajanbhai Ramanbhai Arajanbhai Maniben Arajanbhai Ramiben Arajanbhai
			105/4		Private	Agriculture	0.2277 Dahiben Panchabhai Bhudarbhai Ni Dikari Saradaben Dhulabhai Varshaben Dhulabhai Anilkumar Dhulabhai
			105/3		Private	Agriculture	0.0573 Mangalbhai Ukabhai
			43/1	43/1/1	Private	Agriculture	0.8145 Kalabhai Sanajee Gabhruhahi Sanajee Vajesang Sanajee Buhdabhai Sanajee Prabhatbhai Sanajee Samuben Sanajee Jadiben Gugaji Ni Vidhva Ambalal Gugaji Jenabhai Gugaji Chanchanben Sanajee Gugaji Chhotabhai Gugaji Mahduben Sanajee Santibhai Sanajee Sheetaben Sanajee
			22		Private	Agriculture	1.8460 Madhuben Haribhai Kapadiya Ni Patni Jethabhai Ganeshbhai Parmar Ni Dikari
			21		Private	Agriculture	0.3301 Jayntibhai Bhikhabhai Bharvad
			20		Private	Agriculture	1.0980 Inadubhai Bhikhabhai Bharvad
							Manubhai Aatmaram Parmar Parsotam Aatmaram Parmar Ishvarbhai Aatmaram Parmar



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			339	Private	Agriculture	0.1266	Kapilaben chunibhai khoda Ni Vidhva Shaileshbhai Chunibhai Anilkumar Chunibhai Chetanaben Chunibhai Yogitaben Chunibhai
			332	Private	Agriculture	0.0716	Shunilbhai Pursotambhai Narotambhai
			333	Private	Agriculture	0.3769	Manubhai Maganbhai Shantibhai Maganbhai Ramanbhai Maganbhai Sureshbhai Maganbhai Mashuben Maganbhai Geetaxben Maganbhai Dahiben Magan Talashi Ni Vidhva
			334	Private	Agriculture	0.6909	Girishbhai Chandu bhai Ilaben Chandu bhai
			324	Private	Agriculture	0.0172	Parshotam Mangalbhai Chandubhai Mangalbhai Vinubhai Mangalbhai Ramanbhai Maganbhai
			325	Private	Agriculture	0.0327	Bhagvatprasad Devshankar Shunandaben Kanaiyalal Devashankar Ni Vidhva Bharatiben Kanaiyalal Bhdaresh kanaiyalal Ilaben Kanaiyalal Kileshbhai Kanaiyalal
			322	Private	Agriculture	0.3863	Ravaji bhai SomaBhai Amabalal Somabhai Jasbhai Somabhai
			335	Private	Agriculture	0.5175	Dahiben Umedbhai Kalidas NI Vidhva Bhanubhai Umedabhai Narendarbhai Umedabhai
			337	Private	Agriculture	0.0008	Rashiklal Ganpatram

[F. No. 2010/LML/12/4-Western Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director (Land and Amenities-1)